



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 आश्विन, 1940 (श०)

संख्या- 918 राँची, बुधवार

26 सितम्बर, 2018 (ई०)

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

-----

संकल्प

25 सितम्बर, 2018

संख्या-5/आरोप-1-10/2018-2400 (HRMS)-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री अभय कुमार झा, झा०प्र०से० (चतुर्थ 'सीमित' बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा, पूर्वी सिंहभूम, सम्प्रति-निलंबित के विरुद्ध बहरागोड़ा प्रखण्ड अन्तर्गत बरसोल थाना के कुमारडूबी ग्राम में दिनांक 24 सितम्बर, 2017 को घटित घटना स्थल पर उपस्थित नहीं रहने, कर्तव्य के प्रति लापरवाही, शिथिलता बरतने, मुख्यालय से बाहर रहने एवं बहरागोड़ा में घटित बड़ी घटना की उपेक्षा कर विलम्ब से घटना स्थल पर पहुँचने संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक-381/स्था०, दिनांक 12 मई, 2018 द्वारा संलग्न प्रपत्र-'क' में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री झा के विरुद्ध प्रपत्र- 'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री झा को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान

उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री झा द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्री झा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ABHAY KUMAR JHA JHK/JAS/272	श्री अभय कुमार झा, झा०प्र०से० (चतुर्थ 'सीमित' बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा, पूर्वी सिंहभूम, सम्प्रति-निलंबित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अशोक कुमार खेतान,**

सरकार के संयुक्त सचिव

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

-----